

विश्व न्याय मंदिर

बहाई विश्व केंद्र • पी.ओ. बॉक्स 155 • 3100101 हाइफा, इज़रायल

टेलिफोन: +972 (4) 835 8358 • ईमेल: secretariat@bwc.org

8 नवंबर 2021

सभी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं को

प्रिय बहाई मित्रों,

हमारे धर्म की 'केन्द्रीय विभूतियों' से जुड़े बहुमूल्य पवित्र स्थलों के संरक्षण के उद्देश्य से, बहाई विश्व केंद्र पर प्रगति कार्य तेजी से जारी हैं, और हम प्रशान्त एवं पावन स्थल, माज़राईह, अक्का की कारानगरी की चारदीवारी में नौ वर्षों की कैद के बाद बहाउल्लाह के प्रथम आवास, में सम्पन्न हो रहे प्रगति कार्यों की घोषणा करते हुए हर्षित हैं।

माज़राईह की हवेली की मूल शैली की और अधिक घनिष्ठ झलक प्रस्तुत करते हुए, बहाउल्लाह के कक्ष का पुनःनिर्माण कर दिया गया है—दीवारों को सुसज्जित करने वाले चित्रांकित फूलों की रूपरेखा, जिसपर सालों पहले प्लास्टर कर दिया गया था, को पूर्वरूप में लाया गया है, और प्रत्येक दीवार पर बने मूल झरोखों को, जिनसे स्वयं बहाउल्लाह बाग-बगीचों, पहाड़ियों, और समुद्र के दृश्य निहारा करते थे, पुनःसंस्थापित कर दिया गया है। प्रांगण के अंदर, उद्यान और उसके आस-पास की दीवारों को नया बना दिया गया है, और कृत्रिम जलसेतु (एक्विडक्ट) के एक हिस्से को भी पूर्वरूप में ला दिया गया है—उस जलसेतु को जिसकी अक्का के गवर्नर के सेवा-प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में बहाउल्लाह के सुझाव पर मरम्मत करवाई गई थी। अन्य परिवर्तन हवेली के उपमार्गों और पास की कृषिभूमि में भी किए गए हैं।

आगामी वर्षों में, हवेली के अन्य कक्षों में संरक्षण के कार्य पूरे किए जाएंगे, और उस आशीर्वादित स्थल की प्रशांत चेतना को हृदयंगम करने के उद्देश्य से, आगंतुकों को भ्रमण एवं आनंद का लाभ देने हेतु विस्तृत एवं खुला क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए, आस-पास के परिदृश्य को सुन्दर बनाया जाएगा। हालांकि निर्माण कार्य अभी भी जारी है, हमें आशा है कि तीर्थयात्री शीघ्र ही एक बार पुनः इस पवित्र स्थल का भ्रमण कर सकेंगे।

विश्व न्याय मंदिर

प्रतिलिपि: अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र

सलाहकार मंडल

सलाहकारगण